

4666

4557 2000Rs.



R. Act. N. 57
 33 A 286-0
 N 1-20
 4/50 287-20

1-2-2000
 2-2-2000
 3-2-2000
 4-2-2000
 5-2-2000
 6-2-2000
 7-2-2000
 8-2-2000
 9-2-2000
 10-2-2000
 11-2-2000
 12-2-2000
 13-2-2000
 14-2-2000
 15-2-2000
 16-2-2000
 17-2-2000
 18-2-2000
 19-2-2000
 20-2-2000
 21-2-2000
 22-2-2000
 23-2-2000
 24-2-2000
 25-2-2000
 26-2-2000
 27-2-2000
 28-2-2000
 29-2-2000
 30-2-2000

287590
 287590

वर्षभ्रम-दुपार-अडियर-6 वर्षभ्रम-
 मानार-अनुसुति-29,000,000
 अनुसुति-द्वान-पिस।
 दुपारअडियर-अनुसुति-1000
 वर्षभ्रम-मानार-अनुसुति-1000

द्वान-पिस-अनुसुति-
 1। अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-
 2। अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-
 3। अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-
 अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-
 अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-
 अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-अनुसुति-

219

Sl. No. 295 Treasury
 sold To Smt. Tunia Debi Shaw alias Urmila Debi Shaw
 on 25/5/90
 Rs 2700 (200 + 50 + 220)
 Burdwan



Stamp Clerk,
 Burdwan.
 12-10P M. on the
 28th day of May
 1990 at the
 Sub-Registration Office
 Tunia Debi Shaw
 alias Urmila Debi Shaw

Tunia Debi Shaw
 alias ~~Urmila Debi Shaw~~
 san wife of ~~Rajendra~~
~~Khalu Bilal Mat~~
 Burdwan
 Burdwan
 H.B.S.

শ্রীমতী তুনিয়া দেবী শাস
 ৩৩২০
 ডে বিলিয়ার (দেবী) শাস
 স্মি বরেন্দ্র শাস

Sub-Registration
 BURDWAN

28/5/90

5649

শ্রীমতী তুনিয়া দেবী শাস
 ৩৩২০
 ডে বিলিয়ার (দেবী) শাস
 স্মি বরেন্দ্র শাস

Received by
~~Rajendra Debi~~
 on 25/5/90 of ~~Rajendra Debi~~
~~Khalu Bilal Mat~~
 Burdwan
 Burdwan
 H.B.S.

শ্রী বরেন্দ্র শাস
 স্মি বরেন্দ্র শাস
 স্মি বরেন্দ্র শাস
 স্মি বরেন্দ্র শাস

Sub-Registration
 BURDWAN

28/5/90

295
Smt. Tuli
25/5/9
Rs. 2797 (2000 +)





Handwritten text in Odia script, likely a signature or address, written vertically.

Main body of handwritten text in Odia script, consisting of several lines of text.

295

Smt. Tun

25/5/90

27 Oct (2000)



[Handwritten signature]

SECRETARY

287

Handwritten notes at the top right, possibly a signature or title, including the word 'Sanskrit'.



२। ४ बर्काम तपोरु-डां - ३००० - ३००० - ३००० - ३००० - ३०००
 कः - ४२
 अतिशुभम् ७०० र. ३ अतिशुभम् - ३४९०
 दृश्यम् - १२८० बा. ३० अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 २. १३ अ. अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०

३। अतिशुभम् अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 दृश्यम् - १११ अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०

अतिशुभम् २२ - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०

४। अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०

अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०

५। अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०
 अतिशुभम् - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९० - ३४९०

Handwritten text in Bengali script, possibly a signature or address, including the name 'Kanai Das Samanta'.

সংস্কৃত-বীণা ১০। মূল্য ১৫০০০,

কলিকতা-পশ্চিম-বঙ্গ সরকার-পত্র-১৩.৬.৬০
কলিকতা।

সং: - ৪ মার্চ - ১৯৬০ "আজ" কলিকতা, "আজ" (কলিকতা)

শ্রীমতী কলিকতা দেবী কল
কলিকতা
কলিকতা দেবী কল
কলিকতা
শ্রী কলিকতা দেবী

এই কলিকতা দেবী কল
কলিকতা দেবী কল
শ্রী কলিকতা দেবী

Handwritten signature or name in Bengali script.

Kanai Das Samanta
33, G. N. Mitra Lane
Burdwan.

কলিকতা-
শ্রী কলিকতা দেবী কল
কলিকতা
L. No. ১৩০-১১

শ্রী কলিকতা দেবী কল
কলিকতা
কলিকতা



214.02

R

Year No.	1
Volume No.	1
Page No.	1
Issue No.	1
Year	1990

1990

0228/82



214-225

Frank

6/19/90

(61495)